



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 1978/पाँच 23, 1899

No. 28] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 1978/ PAUSA 23, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1978

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 33(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)
को धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो
जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
(1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 में सम्मिलित एसीटॉन को, जब
उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से

छूट देती है जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक है।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1978 तक जिसमें यह नारील भी है प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 16/का. सं. 355/370/77-सी.शु-1]

एम. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 33(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts acetone, falling within Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 25 per cent ad valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st December, 1978.

[No. 16/F. No. 355/370/77-Cus. II]

M. JAYARAMAN, Under Secy